



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 414 राँची, शुक्रवार,

24 मई, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

24 मई, 2019

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध - 04/2018 - 1841/रा.-- भारत सरकार के राजपत्र सं०-1293, दिनांक- 28 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना का.आ.-1455 (अ.), नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019 के अनुसार - केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जायेगी। जनगणना के लिये संदर्भ तारीख मार्च, 2021 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी। तदनुसार राज्य सरकार भी घोषणा करती है कि झारखण्ड में जनगणना के लिये संदर्भ तारीख मार्च, 2021 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।